

April 12, 2021

To,

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001

Scrip Code: 500267

Re: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding the notice of Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") called by Requisitonists shareholders re-scheduled on Saturday, May 08, 2021 at 02:30 P.M. as per BSE Intimation dated 10<sup>th</sup> April, 2021.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Majestic Auto Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

NEW DELHI | 10 APRIL 2021 Weekend Business Standard



# NOTICE

#### **DSP** MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given to all investor(s)/Unit holder(s) of DSP Mutual Fund ('Fund') that in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/ CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018; the Half Yearly Portfolio of the schemes of the Fund for the half year ended March 31, 2021 has been hosted on the website of the Fund viz. www.dspim.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com.

Investors can request for physical copy of Half Yearly Portfolio through any of the following means:

- a. SMS:- Send an SMS to 9266277288 from investor's registered mobile number. SMS format "HYPORTFOLIO<space>Folio".
- Example: HYPORTFOLIO 123456
- b. Telephone:- Give a call at our Contact Centre at 1800 208 4499 /1800 200 4499
- c. Email:- Send an email to service@dspim.com
- d. Letter:- Submit a letter at any of the AMC Offices or CAMS investor Service Centres, list available at www.dspim.com

Any queries/clarifications in this regard may be addressed to: DSP Investment Managers Private Limited ("AMC"), CIN: U74140MH1996PTC099483,

Investment Manager for DSP Mutual Fund, Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021 Tel. No.: 91-22 66578000, Fax No.: 91-22 66578181, Toll Free No: 1800 200 4499, www.dspim.com

Investors/unit holders are requested to update their email address, mobile number and nomination details with the AMC.

Place: Mumbai Date: April 9, 2021

Bid incremental amount

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES** 

e-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to th Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank, (erstwhile Allahabad Bank), SAM Branch Delhi(Secured Creditor) will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is basis" on 30/04/2021, for recovery of Rs7,87,18,701/- (Rupees Seven crores eighty seven lakhs eightee thousand seven hundred and one only (as on 08/04/2021) plus Interest & other expenses(excluding Legal Charges-if any) till realization of the dues owed to the Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank), SAM Branch Delhi (Secured Creditor), by M/S Tara Consultants PVT Ltd.307., Osian Building, 12. Nehru Place, New delhi-110019

And Guarantors – . Shri Rakesh Jain, S/O- Late Shri Jagmohan Das Jain, Smt. Sushma Jain, W/O- Shri Rakesh Jain, and Shri Neerav Jain, S/O- Shri Rakesh Jain, by M/S Tar. Consultants PVT Ltd, 307,, Osian Building, 12, Nehru Place, New delhi-110019

The specific details of the property intended to be brought to sale through e-auction mode are enumerated below:

e-Auction of Sale of immovable property in name of Shri Rakesh Jain,, S/O- Late Shri Jagmohan Das Jain, H.No- R-256,2nd Floor, Greater Kailash-1, New Delhi-110048 on 30/04/2021 at 11.00 A.M under SARFAESI Act 2002				
Detailed description of the Property	desidential Flat — All the part and parcel of property consisting of entire 2nd and 3rd floor (with roof rights) with irect/independent access from the stairs which belong to the owner of Ground floor, for residential purpose only, with structure tanding therein, fittings and fixtures installed therein, of the residential property(flat)situated at Plot No-R-256, Greater (ailash-1,New Delhi,-110048, Effective security mortgaged with us will be 2nd and 3rd floor(with roof rights) where the third oor includes a servant quarter and common toilet(except an area of 125 square feet) in the name of Mr.Rakesh Jain (Director) neasuring 200 square Yards. Boundaries are as under-North – Property No. 254, South-Property No. 258, East-Road, West Service lane			
Details of Encumbrances outstanding dues of Local Self Government, Electricity, Property Tax, Municipal Tax etc if any known to the Bank	Sale deed made of aforesaid property in favour of Shri Rakesh Jain, , S/O- Late Shri Jagmohan Das Jain, H.No- R-256,2nd Floor and 3rd floor (with roof rights) with direct/independent access from the stairs which belong to the owner of Ground floor, for residential purpose only in Greater Kallash-1, New Delhi-110048, Effective security mortgaged with us will be 2nd and 3rd floor(with roof rights) where the third floor includes a servant quarter and common toilet(except an area of 125 square feet) while mortgaged with us and will be sold as "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is basis. Outstanding dues of Local Self Govt, Electricity, Property Tax, Municipal Tax etc are not known to bank			
Reserve Price	Rs.2,58,00,000/- (Rupees Two Crore and Fifty Eight Lacs only)			
EMD Amount	Rs.25,80,000/- (Rupees Twenty Five lacs and eighty thousand only)			

Date and time of e-auction 30-04-2021 between 11.00 A.M to 4.00 P.M

Bidders are advised to visit the website (www.mstcecommerce.com) of our e auction service provider MSTC Ltd to participate in online bid. For Technical Assistance Please ca MSTC HELPDESK No. 033-22901004 and other help line numbers available in service providers help desk. For Registration status with MSTC Ltd, please contact bapiop@mstcecommerce.com and for EMD status please contact ibapifin@mstcecommerce.com.

Rs 1.00.000/- (Rupees One Lakh only)

For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://ibapi.in and for clarifications related to this portal, please contact help line number '18001025026' and '011-41106131'.

Bidders are advised to search for the property in the website with https://ibapi.in and www.mstcecommerce.com

Date: 10.04.2021, Place: New Delhi **Authorized Officer, Indian Bank**  PUBLIC NOTICE

This Is To Inform Public At Large That Mamta Khanna Date Of Birth 16th October 1965 Wife Of Harsh Khanna Expired On 15th Mar 2019 Leaving Behind Only Four Legal Heirs Husband - Harsh Khanna , First Son- Rishab Khanna . Second Son - Shubham Khanna Daughter- Tanya Sethi .if Any Other Perso Having Objection Contact 9999057115, J-9/31 Rajouri Garden Delhi 110027 Within 21 Days Of Publication Of This Ad.

VST INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Azamabad Hyderabad – 500 020 Phone: 91-40-27688000; Fax:91-40-27615336

CIN: L29150TG1930PLC000576. Email:investors@vstind.com website: www.vsthvd.com

**NOTICE** Notice is hereby given pursuant to

Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEB (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015

that a Meeting of the Board of

Directors of the Company is

scheduled to be held on Wednesday, 21st April, 2021 interalia, to consider and approve the audited financial results for the year

ended 31st March, 2021 and to

ecommend dividend, if any, for the

The intimation contained in this

notice is available on the Company's

website www.vsthvd.com and also

on the website of the Stock

Exchanges viz. BSE Limitedwww.bseindia.com and The Nationa

Stock Exchange of India Limited

For VST INDUSTRIES LIMITED

PHANI K. MANGIPUDI

financial year 2020-21

www.nseindia.com.

: Hyderabad : 10<sup>th</sup> April, 2021



# Home First Finance Company India Limited

CIN:U65990MH2010PTC240703 Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

You the below mentioned borrower has availed loan for Rs. 12,91,763/- towards Housing Loan by mortgaging the schedule mentioned property. Since you failed and neglected to respond to our notices to call upon to pay your outstanding dues and regularize your said loan account, we are constrained to recall the entire loan and hence the entire amount disbursed under the said Loan Agreement/addendum together with interest and all cost charges and expenses and other sums due and payable under the said Loan Agreement/Addendum has become immediately due and payable by you to our client. The notices have been sent to you by the Registered Post. The contents of the said notices are that you had committed default in payment of the various loans guaranteed to

you. Therefore, the present publication carried out to serve the Loan Recall Notice				
Name and Address of the Account, Borrower(s) & Guarantor(s)	Details of the security to be enforced	Date of Notice	Amount due as per Recall Notice	
Sakshi Sharma Residing at: H No. 3160, Second Floor, Sector 23,Gurgaon-122022	Avalon Rangoli, Alwar Bypass, Bhiwadi, Block. A7, Flat No. 1404		Rs.14,06,466/- as on 01/04/2021 plus further interest and other expenses	
Place: Bhiwadi, Date: 10/04/2021	•	-	ned by: AUTHORISED OFFICER, Finance Company India Limited	

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under section 13/(12) read with Rule 3 of the Security Interest Forcement Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt to the said notice. The borrower having failed to repey the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13/4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

"The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" to gether with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

"The Description of secured assets" and the property is property to the said Act secured assets and incoherence and the property and any dealing wi Description of secured asset (immovable property)

All that piece and parcel of of land/ building the property: Built Up Property land measuring 180 sq yrds, with it roof rights out of Khasra No. 40, Village Jharoda Majra, Burari, Delhi 110084 Delhi BRANCH 1. Mr. Dharmender 2. Mrs. Sarita 3. M/s Dharmender Dairy 09-Dec-20 05-April-21 (Prospect No. 868330) Mr. Naveen Rana and Mr. Rajbir Singh, Mrs Sonu (**Prospect No.** Old Lal Dora 1908-09 measuring 216 sq. yds. Rs. 28,32,756/-Mr. Naveen Rana and Mr. Rajbir 17-Dec-20 | 05-April-2 849122) Siraspur, Delhi, 110042 For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi /or Corporate Office: Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar.

## **Indian Overseas Bank**

**PREET VIHAR BRANCH (1305)** 

A-172,Preet Vihar, New Delhi - 110 092

SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE PROPERTIES [Under Provision to Rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules]

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited

Manual Auction Sale Notice for Sale of immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described movable properties mortgaged/charged to Indian Overseas Bank, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Overseas Bank, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis as per details mentioned hereunder:

s	r	Names of Borrowers	Amount Due To	Description of the Movable Property	Type of	Reserve Price	Date of Auction
N		Names of Guarantors	Indian Overseas Bank	Known Encumbrances If Any	Possession	Earnest Money Deposit	Last Date for submission of BID
				Maruti Suzuki Ertiga VDI Diesel (Four Wheeler) Model: Maruti Suzuki Ertiga Diesel, SEDAN Chassis Number: MA3FLEB1S00300293		Rs.1,94,750/- + Applicable Tax/GST	28.04.2021
1	١.	SHRI BHAGWAN	(less CGTMSE Claim of Rs.3,98,290/-) Plus interest	Engine Number: D13A5103796; Registration No. DL1YE1948	Physical	Rs.19,475/- Contact Person	
			due from <b>08.06.2018</b>	None	1	Mr.Nidhir Kant :	: 9999077338

Wherever applicable, the Reserve Price is inclusive of 0.75% or as applicable Tax under Sec. 194(IA) of IT Act

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on Indian Overseas Bank's website  $i.e. www. iob. in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx? Tendertype = E\_Auction] \ or \ https://ibapi.in$ 

Place: Delhi Dated: 10/04/2021

This may also be treated as a Notice under rule-8(6) / Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s/mortgagors of the said loan about holding of e-auction on the above mentioned date

Submission of EMD starts from 11.04.2021

Place: New Delhi Authorised Officer, Indian Overseas Bank Date: 09.04.2021



## Carrier Airconditioning & Refrigeration Ltd.

CIN: U74999HR1992FLC036104

Regd. Office: Narsingpur, Kherki Daula Post, Gurugram 122 001, Haryana
Phone: +91-124-4825500, Fax: +91-124-2372230

Website: www.carrierindia.com, Email: secretarial@carrier.com

INFORMATION REGARDING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. An Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Carrier Airconditioning & Refrigeration Ltd. ("Company") will be held on Monday, 10" May 2021 at 2.30 P.M. IST (Indian Standard Time) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8° April 2020, 17/2020 dated 13° April 2020, 22/2020 dated 15° June 2020, 33/2020 dated 28" September 2020 and 39/2020 dated 31" December 2020 and/or any other applicable notification/circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") to transact the business set out in the Notice calling the EGM. Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the

2. In accordance with the said circulars of MCA, the Notice of EGM along with explanatory statement will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depositor Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the websi of the Company at www.carrier.com/building-solutions/en/in/investor/ and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) a

www.evotingindia.com.

Manner of registering/updating email addresses:
Members holding shares in physical mode who have not registered/updated their email addresses with the Company and/or Registrar & Share Transfer Agent of the Company can register/update their email addresses and obtain Notice of EGM and login details for joining the EGM through VC/OAVM facility by sending scanned copy of the following documents by email to the Company at **secretarial@carrier.com** and/or to Registrar & Share Transfer Agent of the Company at **admin@mcsregistrars.com**.

(I) a signed request letter mentioning their name, folio no. and address (ii) self-attested copy of the PAN Card and (iii) self-attested copy of any document (e.g. Aadhar Card, Driving License Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialized mode who have not registered /updated their email addresses with the Depository Participant(s) are

requested to register/update their email addresses with their Depository . Manner of casting vote(s) through e-voting:

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all the Resolutions set out in the Notice of the EGM. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the EGM ("e-voting"). Detailed Procedure for remote e-voting/e-voting and participation in EGM through VC/OAVM has been provided in the Notice of EGM which will be sent to you shortly and the same shall also be available on the website of the Company at www.carrier.com/building-solutions/en/in/investor/

The Members may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of the EGM for remote e-voting and e-voting during EGM. The same login credentials may also be used for attending the EGM The Members are requested to carefully read all the Notes set out in the

Notice of the EGM including procedure for joining the EGM th VC/OAVM, the instructions for remote e-voting and e-voting during the EGM Please write to the Secretarial Department of the Company at Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited, Kherki Daula Post, Narsingpui Gurugram-122001 Email: secretarial@carrier.com and/or to Registrar & Share Transfer Agent of the Company at MCS Share Transfer Agent Ltd., F-65, 1\* Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Email:
admin@mcsregistrars.com for any assistance. Members are required to guote their folio no. in all correspondence with the Company/Registrar & Share Transfer Agent of the Company

For Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited Chirag Baijal

Place: Gurugram Date: April 9, 2021 Managing Director DIN: 08465289

# **Majestic Auto Limited**

Registered Office: 10 Southern Avenue, First Floor, Maharani Bagh, New Delhi - 110065

CIN: L35911DL1973PLC353132 | Website: http://www.majesticauto.in

NOTICE OF POSTPONEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING BY REQUISITIONIST SHAREHOLDERS NOTICE is hereby given that due to certain unavoidable circumstances/administrative

easons, the Extra-Ordinary General Meeting ('EGM') of the Shareholders of Majestic Auto Limited (the "Company") as called by requisitionists, earlier scheduled to be held on Tuesday, April 27, 2021 at 11.00 A.M. is postponed and will now be held on Saturday, May 08, 2021 at 2.30 P.M. though Video Conferencing (VC) without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the same business as given in the earlier notice of EGM sent on April 05, 2021.

The shareholders are hereby informed that the copies of the updated Notice of the EGM along with login details for joining the EGM through VC facility including the e-voting have been sent on April 09, 2021 through mail to all those members whose e-mai addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with heir respective Depository Participants ("DP") as on March 12, 2021. Shareholders may please note that, the physical copies of the updated Notice of the EGM are not being

n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with ne Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI LODB, Secretarial Standard - 2 and MCA Circulars, the Members are provided with the acility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to EGM) and e voting (during the EGM) services provided by National Securities Depository Limited "NSDL") on all resolutions set forth in the updated Notice of the EGM.

Basis the copy of updated Notice of the EGM that would be shared by the requisitionists with the Company, Members may note that thesame shall also be made available by he Company on the Company's website www.majesticauto.in and on the website of BSE Limited www.bseindia.com. Updated Noticeof the EGM will also be available on the

website of NSDL <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a>. The period for remote e-voting starts on Wednesday, May 05, 2021 at 09:00 A.M. IST

and ends on Friday, May 07, 2021at 5:00 P.M. Thereafter, the remote e-voting shall be disabled by NSDL for voting. A shareholder may participate in the EGM through VC facility even after exercising his

right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again through e-voting facility available during the EGM. Once the Member cast vote on a resolution, he Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions fo remote e-voting, joining the EGM and e-voting during the EGM is provided in the updated Notice of EGM.

The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by hem in the paid-up share capital of the Company as on May 01, 2021 (the "Cut-off Date") A person who ceases to be the member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of EGM and holds shares as of the cut-off date .e. May 01, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at

Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose e-mail addresses are not registered are requested to register their email addresses with their relevant depositories through their Depository Participants. Shareholders holding shares in

physical mode are requested to register by furnishing their e-mail id by sending an e-mail on rta@alankit.com. Ms. Ayushi Jain, Practicing Company Secretary, is appointed as the scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any query and / or grievance, pertaining to e-voting, members may refer to he Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at https://www.evoting.nsdl.com/under help section or write an e-mail to relations@nsdl.co.in and mark a copy to rta@alankit.com or contact Ms. Shipra Sharma on 011-42541952 for any further clarifications

> On behalf of the requisitionists shareholders Sd/-

**Anadi Investments Private Limited** Date: April 09, 2021





















Place: Ludhiana





इण्डियन ओवरसीज बैंक चल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना [प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन]

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम ८(६) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परसंपत्तियों की बिक्री हेतु दस्ती नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा सर्व साधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं ) और जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक को बंधक / प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्तियां जिनका इण्डियन ्रीवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, नीचे वर्णित विवरण के अनुसार ''**जे है जहां है'', ''जो है जैसी है''** और ''**वहां जो कुछ भी है''** आधार पर बिक्री की जायेंगी।

- 1							
Γ	क्र.	कर्जदारों के नाम	डण्डियन ओवरसीज बैंक को	अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जे का	आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि
							बोली जमा करने की
	सं .	जमानतीयों के नाम	बकाया देय राशि	ज्ञात ऋणभार यदि कोई हो	प्रकार	अग्रिम राशि जमा	अंतिम तिथि
Γ			रु. 7,38,111/-	मारुती सुजुकी अर्टिगा वीडीआई डीजल (चार पहिया वाहन)		रू. 1,94,750/- +	
		_	<b>दिनांक 07.06.2018</b> तक	<b>मॉडल</b> : मॉरुती सुजुकी अर्टिगा डीजल, सीडॉन		लागू कर/जीएसटी	28.04.2021
	1.	श्री भगवान		चेचीस सं. : एमए३एफएफईबी १एस००३००२९३	भौतिक	*****	
		VIII -1 1-11 1		<b>इंजन सं.</b> : डी 13ए5 103796;	111(14)	रू. 19,475/-	27.04.2021
				<b>पंजीयन सं.</b> : डीएल 1वायई 1948		संपर्क त्यक्ति ३	गौर मोबाइल सं.
			ब्याज दिनांक 08.06.2018 से	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		श्री निधीर कांत : 999907733	
			ज्याज विनाव	कोई नहीं		श्रा निधार कात :	9999077338
		<ul> <li>जहाँ भी लाग हो आप्रिश्तः</li> </ul>	मळा में ○ 75 प्रतिशत शामिळ है या आई टी	अधिनियम की भाग 194(आर्चए) के तहत लाग कर।			

बिक्री के निबंधन व शर्तों के लिए कृपया इण्डियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट अर्थात्

www.iob.in[https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E\_Auction] पर दिया लिंक या https://ibapi.in देखें।

यह सूचना उक्त ऋण के कर्जदार(ओं ) और जमानती(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम–8(6)/नियम 9(1) के तहत उपरोक्त दिनांक को ई–नीलामी आयोजन वे

ईएमडी जमा करने की शुरूआत दिनांक 11.04.2021 से होगी।

स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक दिनांक 09.04.2021



## **PGIM India Asset Management Private Limited**

(Erstwhile DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited)

4 - C Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100

CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446 Website: www.pgimindiamf.com

#### NOTICE [No. 02 of 2021-22]

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulation 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the unit holders of all the Scheme(s) of PGIM India Mutual Fund ('Fund') are requested to note that the half yearly portfolio of all the Scheme(s) of the Fund for the half year ended March 31, 2021, are hosted on the website <u>www.pgimindiamf.com</u> and <u>www.amfiindia.com</u>.

The unit holders can submit a request for a physical or electronic copy of the statement of scheme portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2021 by calling on 1800 266 7446 or by sending an email to care@pgimindia.co.in or by writing to PGIM India Asset Management Private Limited at 4th Floor, C Wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 or by sending an SMS on 5607030 (i.e to receive a physical copy, type HYPP<space> < PAN> or < FolioNo> and to receive an electronic copy, type HYPE<space> <PAN> or <FolioNo> or <Email> and send it to 5607030).

> For PGIM India Asset Management Private Limited (Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Sd/-**Authorized Signatory** 

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



### केरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लि.

सीआईएनः U74999HR1992FLC036104 पंजीकृत कार्यालयः नरसिंहपुर, खेरकी डौला पोस्ट, गुरूग्राम 122 001, हरियाणा फोनः +91-124-4825500, फैक्सः +91-124-2372230 वेबसाइटः www.carrierindia.com, ईमेलः secretarial@carrier.com

असाधारण आम बैठक के सम्बन्धित सूचना

. केरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्योां की असाधार आम बैठक ("ईजीएम") बुलाने की सूचना में वर्णित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 22 / 2020 दिनांक 15 जन 2020 33 / 2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020 और 39 / 2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 एवं अन्य लागू अधिसूचना / परिपत्र के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गेत बने नियमों के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में विडियो कांफ्रेसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियों विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम् से सोमवार 10 मुई, 2021 को दोपहर 2:30 बजे भारतीय मानक समय पर आयोजित की जायेगी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पुरा करने के लिए की जाएगी।

एमसीए के उक्त परिपत्रों के अनुपालन में स्पष्टीकरण कथन के साथ ईजीएम की सूचना सभी सदस्यों को मेल द्वारा भेजी जा रही है जिनके मेल कंपनी या डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.carrier.com/building. solutions/en/in/investor/ और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगे।

ई – मेल रजिस्टर / अपडेट करने का तरीकाः

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके मेल कंपनी और / या कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं हैं, वे अपने मेल पंजीकृत /अपडेट करा सकते हैं, secretarial@carrier.com पर कंपनी और/य admin@mcsregistrars.com पर कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट को मेल भेजकर, निम्न दस्तावेजों की स्कैनड प्रति भेजकर, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा ईजीएम से जुड़ने के लिए लॉग – इन विवरण, ईजीएम की सूचना, प्राप्त कर सकते हैं।

) अपना नाम, फोलियो नंबर व पता वर्णित करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र 2) पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति

3) सदस्य के पते के लिए किसी दस्तावेज (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान कार्ड, पासपोर्ट ) की स्व-सत्यापित प्रति

गैर भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके मेल डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साध रजिस्टर / अपडेट नहीं हैं. वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने मेल रजिस्टर /अपडेट करा सकते हैं ।

ई – वोटिंग द्वारा वोट डालने का तरीका:

कंपनी ने ईजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोर्ट ई – वोटिंग की सुविधा दी है। कंपनी ने ईजीएम के दौरान वोटिंग ("ई – वोटिंग") सिस्टम द्वारा वोटिंग करने की सुविधा भी दी है रिमोट ई – वोटिंग / ई – वोटिंग एवं वीसी / ओएवीएम द्वारा ईजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम की सूचना में विस्तारित की गई है जो कि आपको शीघ्र ही भेज दिया जाएगा और यह कंपनी की वेबसाइट www.carrier.com/building solutions/en/in/investor/ पर भी उपलब्ध होगा।

सदस्य ईजीएम के दौरान रिमोट ई - वोटिंग व ई - वोटिंग के लिए ईजीएम की सूचना में टिप्पणियाँ में दिए गए निर्देशों को अपनाकर लॉग – इन क्रेडेंशियल जनरेट कर सकते हैं लॉग - इन क्रेडेंशियल वीसी / ओएवीएम के द्वारा ईजीएम में भाग लेने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के द्वारा ईजीएम से जुड़ने की प्रक्रिया, रिमोट ई — वोटिंग व ईजीएम के दौरान ई — वोटिंग की सूचना के लिए ईजीएम की नोटिस के टिप्पणियाँ में दिय गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी भी सहायता के लिए कृपया कंपनी के सचिव विभाग, कैरियर एयरकंडीशिनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, खेरकी डौला पोस्ट नरसिंहपुर, गुरूग्राम — 122001, ई — मेल : secretarial@carrier.com और / या कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट एमसीएस शेयर हस्तांतरण एजेंट लि., एफ – 65, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज – 1, नई दिल्ली – 110020 ई – मेलः admin@mcsregistrars.com को लिख सकते हैं। सदस्यों को कंपनी/कंपनी के केरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लिमिटेड

स्थानः गुरूग्राम दिनांकः 9 अप्रैल, 2021

चिराग बैजल प्रबंधक निदेशक डीआईएनः 08465289

हस्ता. 🖊 -

## मैजस्टिक आटो लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:10 साऊर्थन एवेन्यू, प्रथम मंजिल, महारानी बाग, नई दिल्ली -110065 CIN: L35911DL1973PLC353132 | Website: http://www.majesticauto.in

#### अपेक्षित शेयरधारकों की मांग पर विशेष सामान्य साधारण बैठक की स्थगन सूचना

एतदद्वारा सचना प्रदान की जाती है कि कुछ अपरिहार्य/प्रशासनिक कारणों से मैजस्टिक आटो लिमिटेड कम्पनी की अपेक्षित शेयरधारकों द्वारा बुलाई गई विशेष सामान्य साधारण बैठक, जो कि पहले मंगलवार, अप्रैल, 27, 2021 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की जानी थी, अब शनिवार, मई 08, 2021 को दोपहर 2.30 बजे एक सामान्य स्थल पर शेयरधारकों की बिना भौतिक उपस्थिति के विडियो कान्फ्रसिंग ("वीसी") द्वारा उसी व्यवसाय हेतु पहले वाले ईजीएम की भेजी गई सूचना दिनांक अप्रैल 05, 2021 के निष्पादन के लिए आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में शेयरधारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ईजीएम की सूचना साथ में ईजीएम में वीसी द्वारा उपस्थित सुविधा ई-वाटिंग को मिलाकर जिन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा पंजीयक एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अथवा उनके सम्बन्धित डिपाजटरी भागीदार ("डीपी") के पास मार्च 12, 2021 को पंजीकत को अप्रैल 09, 2021 को मेल द्वारा भेज दी गई है। शेयरधारक नोट करें कि उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के संदर्भ में ईजीएम सूचना की भौतिक प्रतियाँ नहीं भेजी जा रही हैं।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014, सेबी एलओडीआर, सेक्रेटीयल स्टैंडर्ड- 2 नियमन 44 एवं एमसीए परिपत्र वे प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग पर इलेक्ट्रानिकली वोट देने (ईजीएम से पहले) एवं ई-वोटिंग (ईजीएम के दौरान) ईजीएम की सचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्ताओं पर नेशनल सिक्योरीटीज डिपाजटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा सुविधा प्रदान करा रही है।

सदस्य नोट करें कि ईजीएम की सूचना साथ में कम्पनी की वेबसाइट www.majesticauto.in एवं स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com के अनुसार इस सूचना की प्रतिलिपि अपेक्षित को कम्पनी द्वारा साझा की जायेगी। ईजीएम की अपडेटेड सूचना साथ में एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध

रिमोट ई-वोटिंग का समय बुधवार, मई 05, 2021 को प्रातः 09:00 बजे आईएसटी से प्रारम्भ होकर शुक्रवार, मई 07, 2021 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी। तदोपरान्त एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को वोटिंग के लिए निःशक्त कर दिया जायेगा।

एक शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोटिंग का वीसी द्वारा सुविधा के अधिकार क इस्तेमाल करनें के बाद भी रिमोट ईजीएम में भाग ले सकता है लेकिन ईजीएम के दौरान फिर से ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग की सुविधा की अनुमित नहीं दी जायेगी। सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट देने पर फिर से बार-बार बदलने की अनुमित नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग, ईजीएम में शामिल होने एवं ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तारित अपडेटेड विवरण ईजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।

सदस्यों को वोटिंग का अधिकार मई 01, 2021 ("कट ऑफ तिथि") के अनुसार सदस्यों को उनके द्वारा कम्पनी के प्रदत्त इक्वीटी कैपीटल के अनुपात में होगा। एक सदस्य जिसने कट-ऑफ तिथि को सदस्यता सीज कर ली है वे इस सूचना को केवल जानकारी के लिए

एक व्यक्ति, जिसने कट-ऑफ तिथि i.e. मई 01, 2021 को ईजीएम की सूचना भेजने व बाद शेयर्स अर्जित किये हों एवं कम्पनी का सदस्य बना हो लॉगइन आईडी एवं प्राप्त करने के लिए ई-मेल\_rta@alankit.com पर आग्रह भेजकर प्राप्त कर सकता है। डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर धारित शेयरधारक एवं जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं

से आग्रह है कि वे अपने ईमेल पते अपने प्रासंगिक डिपाटरीज के पास डिपाटरीज भागीदार

द्वारा पंजीकृत करा लें। भौतिक माध्यम में शेयर धारित शेयरधारकों से आग्रह है कि वे अपने ई-मेल पते <u>rta@alankit.com</u> पर अपने ई-मेल आईडी भेजकर पंजीकृत करा लें। सुश्री आयुशी जैन, कार्यरत कम्पनी सचिव को ई-वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को

निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न/अथवा शिकायत के लिए सदस्य लगातार प्रश्न पूछने (एफएक्यूज) एवं ई-वोटिंग उपयोग पुस्तिका https://www.evoting.nsdl.com/ के सहायता माग को संदर्भित कर अथवा <u>relations@nsdl.co.in</u> पर ई—मेल भेजकर एवं प्रतिलिपि rta@alankit.com को प्रतिलिपि मार्क कर सकते हैं एवं सुश्री शिप्रा शर्मा को rta@alankit.com पर अथवा 011-42541952 पर पुनः किसी भी स्पष्टीकरण के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।

अपेक्षित शेयरधारकों की ओर से स्थानः लुधियाना तिथिः अप्रैल 09, 2021 अनादि इन्वेटमैन्टस प्राईवेट लिमिटेड



# होम फस्टे फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

Place: Mumbai

Date: April 09, 2021

सीआईएन: U65990MH2010PTC240703 वेबसाइट: homefirstindia.com फोन नं: 180030008425 ई—मेल आईडी: loanfirst@homefirstindia.com

#### मांग सुचना धारा 13(2) के तहत

आप अधोल्लिखित कर्जदार ने नीचे वर्णित अनुसूचित संपत्ति के बंधन द्वारा ऋण प्राप्त किया है और आप अधोल्लिखित ऋण करार के लिए कर्जदार / सह–कर्जदार जमानती बने हैं। आपके द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप आपका ऋण खाता वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 **(संक्षिप्त में सरफासी अधिनियम)** के प्रावधानों के तहत **05.04.2021** को अनर्जक आस्ति वर्गीकृत किया गया है। हम **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** ने आपके द्वारा दिए पते पर सरफासी अधिनियम की धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी। उक्त सूचनाएँ 05.04.2021 को जारी की गई हैं और ये सूचनाएँ दर्शाती हैं कि आपने आपको संस्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक है। इसलिए, यह प्रकाशन सरफासी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार आपको सूचना देने के लिए किया गया है:

खाते, कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) के नाम व पते	प्रवर्तन की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार 05.04.2021 को देय राशि और आगे की ब्याज व अन्य व्यय
अन्नपूर्णा शक्ति सिंह और शक्ति सिंह	प्लॉट नं. 18—19, सरोज नगर, खार वालों की धानी, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, राजस्थान—302027	रु. 4,72,748 ∕ ─
बद्री लाल और संगीता रामचंद्रा पांचाल	प्लॉट नं. 148, रोहित नगर V, केशव विद्यापीठ रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, जयपुर राजस्थान–302027	₹. 6,60,583 / —
चंचल कुमार और नीतू गोरख	प्लॉट नं. 24—सी, श्याम वाटिका, गाँव—हीरापुरा, लुईयावास, गोनेर रोड, जयपुर, जयपुर राजस्थान—303602	₹. 8,90,863/-
हितेश धारा सिंह और नितेश जोशी	मकान नं. 7, प्लॉट नं. ईडब्ल्यूएस–07, गाँव मंडाऊ में स्कीम किंग्स रेजीडेंसी में, तहसील सांगनेर, जयपुर, जयपुर राजस्थान–302029	⊽. 10,95,716 ∕ ─
जगदीश नारायण और प्रेम देवी	मकान नं. ६ए, श्याम विहार स्कीम में, जमडोली, आगरा रोड, जयपुर राजस्थान—302031	<b>⊽. 7,10,576 ∕</b> —
निर्मला कंवर, गोविंद सिंह, परमवीर सिंह, और भवानी सिंह	प्लॉट नं. 65, सुमन विहार—सी स्कीम में, बिचीपिड़ी रोड, गाँव निमेरा, जयपुर राजस्थान—302012	₹. 9,56,065/—
रवि शर्मा और सावित्री देवी	प्लॉट नं. ७, गणपति विहार ए में, कलवर रोड, हथौज, जयपुर जयपुर राजस्थान—302012	<b>⊽. 9,28,155</b> ∕ ─
सुजान सिंह और सरिता देवी	आवासीय प्लॉट नं. 43, अशोक नगर स्कीम में, थाना मोड़, रामगढ़ रोड, जयपुर जयपुर राजस्थान–303109	₹. 4,38,863 / —
उत्तम मंडल और सुपर्णा मंडल	प्लॉट नं. 20, महादेव नगर स्कीम, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर जयपुर राजस्थान—302007	₹. 6,44,225/—
विजय प्रकाश और विक्रम सिंह	प्लॉट नं. 654(डी), निराया विहार ० फेज ०५, असरपुरा / गणपतपुरा / भंकरोटा अजमेर रोड, जयपुर जयपुर राजस्थान–302026	रु. 24,42,113∕−
विक्रम सिंह, प्रदीप सिंह और भवानी सिंह चौहान	प्लॉट नं. 1–ए, राजेन्द्र नगर विस्तार, गाँव–हीरापुरा, गोनेर रोड, जयपुर राजस्थान–302012	रु. 8,10,301 ∕ —

आपको उपरोक्त राशि को ब्याज व लागत सहित इस सूचना प्रकाशन से 60 दिनों की अवधि अंदर **होम फर्स्ट फाइनेंस** कंपनी इंडिया लिमिटेड को भगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा कर्जदरों, बंधककर्ताओं और जमानतियों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के कब्जा लेने सहित एक या सभी प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के तहत होम फर्स्ट **फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** के पास (1) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए पट्टे, एसाइमेंट या बिक्री द्वारा हस्तांतरण के अधिकारों सहित कर्जदारों / जमानतियों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की शक्ति (2) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए पट्टे, एसाइमेंट या बिक्री द्वारा हस्तांतरण के अधिकारों सहित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का प्रबंधन लेने की शक्ति है। **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के रूप में हस्तांतरण पर वह सभी अधिकार व संबंध निहित होंगे जो आपके द्वारा हस्तांतरण करने पर हस्तांतरित प्रत्याभूत परिसंपित्तयों पर निहित होते।

उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार आप बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके (आपके व्यवसाय के सामान्य क्रम से इतर) से यहाँ ऊपर उल्लिखित और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को रेहन / बंधक किसी प्रत्याभूत परिसंपत्ति को बिना **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** की सहमति के हस्तांतरित करने से निषिद्ध होंगे

हस्ताक्षरितः प्राधिकृत अधिकारी दिनांकः 10.04.2021 होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड ए	न्फोर्समेंट ऑफ
मिक्योरिटी दन्हरेस्ट एक्ट. 2002 (कानन) की धारा 13(2) के अंत	र्गत सचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए. की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1	कर्ज खाता क्र. HLLANOI00477850 1. सुनील घोरावत 2. शिवानी घोरावत 3. या वी डू डिज़ाइन ग्राइवेट लिमिटेड 4. शशांक गुप्ता 5. संजय बमीजा 6. प्रियंका कुमार	ऑफिस की जगह/युनिटर्न.701 (ऑफिस की जगह/युनिट नं.01 सातवीं मंजिल पर), इरोस सिटी स्केअर, रोज़बूड सिटी, सेक्टर 49 -50, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा	25.03.2021	रू63,64,625.49 /- (रूपये तिरेसठ लाख चोसठ हजार छ सौ पच्चीस और उनचास पैसे मात्र) 25.03.2021 के अनुसार
2	कर्ज खाता क्र. HLLANOI00477844 1.सुनील घोरावत 2.शिवानी घोरावत 3. या वी डू डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड 6. शशांक गुप्ता 5. संजय धमीजा 6. प्रियंका कुमार	ऑफिस की जगह/युनिट नं.710 (ऑफिस की जगह/युनिट नं.10 सातवीं मंजिल पर), इरोस सिटी स्केअर, रोज़बूड सिटी, सेक्टर 49 -50, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा	25.03.2021	रू.35,38,128.23/- (रूपये पैंतीस लाख अड़तीस हजार एक सौ अट्टाईस और तेईस पैसे मात्र) 25.03.2021 के अनुसार
3	कर्ज खाता क्र. HLLANOI00477910 1.सुनील घोरावत 2. संजय धमीजा 3. शिवानी घोरावत	संपत्ति नं.1:- दुकान नं.001, तल मंजिल, बेस्टेक चेंबर्स, बी- ब्लॉक, सुशांत लोक, फेज-1, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, संपत्ति नं.2:- दुकान नं.002, तल मंजिल, बेस्टेक चेंबर्स, बी- ब्लॉक, सुशांत लोक, फेज-1, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, और संपत्ति नं.3:- दुकान नं.035, तल मंजिल, बेस्टेक चेंबर्स, बी-ब्लॉक, सुशांत लोक, फेज-1, गुरुग्राम-122002, हरियाणा,	25.03.2021	रू.1,37,38,506.61 /- (रूपये एक करोड़ सैतीस लाख अड़तीस हजार पाँच स छ और इकसठ पैसे मात्र) 25.03.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी ह़ई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार ,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के . अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियं

में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमित के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंति है। स्थान: गुरुग्राम

कृते इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड

अनु. कर्जदाता (ओं) का नाम गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण तारीख (सी) (रू.) (डी) (बी) 1 कर्ज खाता क विला नं.10, ब्लॉक-ए, रोज़वूड सिटी, सेक्टर 板.9,21,76,030.54 /-26.03.2021 HHLDMT00353662 49 और 50, गुडगाँव, हरियाणा - 122011, . विवेक हरिव्यासी .लीना हरिव्यासी

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ

सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

(रूपये नौ करोड़ इक्कीस लाख छिहत्तर हजार तीस और चौवन पैसे मात्र) 26.03.2021 के अनुसार 2 कर्ज खाता क्र. विला नं.10, ब्लॉक-ए, रोज़वूड सिटी, सेक्टर ₹.46.90.208.66/-26.03.2021 HHEDMT00365446 49 और 50, गुडगाँव, हरियाणा - 122011, (रूपये छियालीस लाख . विवेक हरिव्यासी नब्बे हजार दो सौ आठ और किसामह गैमे पान) 2.लीना हरिव्यासी **26.03.2021** के अनुसार फ्लैट नं.2002, बीसवीं मंजिल, टॉवर-बी, 3 कर्ज खाता क्र. रू.1,89,85,252.39 /-26.03.2021 HHLDUB00464631 सॉवरेन पार्क, सेक्टर -99, गुरुग्राम-122001, (रूपये एक करोड़ नवासी ्गौतम नंद इलाहबादिया उर्फ लाख पंचासी हजार दो सौ बावन और उनचालीस पैसे मात्र) 26.03.2021 के अनसार 4 कर्ज खाता क्र. डुप्लेक्स फ्लैट नं.105, दसवीं और ग्यारहवीं रू.16,45,98,076.45 /-25.03.2021 HHLNOI00412499 मेंजिल, प्लॉट नं.20, टॉवर-1, डीएलएफ (रूपये सोलह करोड़ रैतालीस लाख अठानवे .सुनील घोरावत मैग्नोलियस, डीएलएफ गोल्फ लिंक, फेज़– V, हजार छिहत्तर और पैतालीस 2. शिवानी घोरावत गुरुग्राम-122021, हरियाणा पैसे मात्र) 25.03.2021 के 5 कर्ज खाता क्र. डप्लेक्स फ्लैट नं.105. दसवीं और ग्यारहवीं रू.1.12.16.141.84 /-25.03.2021 HHLNOI00412501 . गंजिल, प्लॉट नं.20, टॉवर-1, डीएलएप (रूपये एक करोड़ बारह लाख सोलह हजार एक सौ इकतालीस और चौरासी मैग्नोलियस, डीएलएफ गोल्फ लिंक, फेज़– V, 1.सुनील घोरावत . शिवानी घोरावत गुरुग्राम-122021, हरियाणा पैसे मात्र) 25.03.2021 वे डुप्लेक्स फ्लैट नं.105, दसवीं और ग्यारहवीं रू.4,35,79,669.53 /-(रूपये चार करोड़ पैंतीस 6 கூர் பார க 25.03.2021 HLAPNOI00476365 मंजिल, प्लॉट नं.20, टॉवर-1, डीएलएफ मैग्नोलियस, डीएलएफ गोल्फ लिंक, फेज़- V, ाख उनासी हजार छ 1.सनील घोरावत सौ उनहत्तर और तिरेपन 2. शिवानी घोरावत गुरुग्राम-122021, हरियाण पैसे मात्र) 25.03.2021 वे अनुसार 7 कर्ज खाता क्र. युनिट नं.एमसी-1501, मून कोर्ट अपार्टमेंट, रू.52,62,131.26/-26.03.2021 HHI JAI00082823 टॉवर-03, पंद्रहवीं मंजिल पर, सुपर एरिया (रूपये बावन लाख बामठ हजार एक सौ डकतीस 1.विष्णु कुमार अग्रवाल लगभग 1650 स्के.फीट, (153.28 स्के.मी.),

कसाना रोड, ग्रेटर नोएडा -201306, उत्तर प्रदेश एक कार पार्किंग के साथ कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

जेपी ग्रीन्स पर स्थित, जी, ब्लॉक, सुरजपुर

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्यक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतददारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि. वे इस सचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी । कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार ,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों. लागतों और प्रभारों के साथ संपर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता "

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंति है

स्थान:गुडगाँव/गुरुग्राम/ ग्रेटरनोएडा

2. मंजु अग्रवाल

प्राधिकृत अधिकारी कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

26.03.2021 के अनसार

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए. की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1	कर्ज खाता क. HLLAALW00369381 1. मंजु अग्रवाल 2.अलवर इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एन्ड टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड 3. सनराइज इंटीग्रेटेड एजुकेशनल ट्रस्ट 4. विष्णु कुमार अग्रवाल	जमीन/संपत्ति के सभी भाग और खंड के साथ संरंचनाएं, इमारत,फर्निचर, फिक्सचर, फिटींग्स, वहाँ पर है और/अथवा प्लान्ट और मशीनरी स्थापित/स्थापित करना है और/अथवा निर्मित/ निर्माणाधिन और मंजु अग्रवाल के सभी वर्तमान और भावख के अधिकार, टाइटल और इंट्रेस्ट जमीन के सभी प्लॉट में से प्लॉट नं.2, स्किम नं.8 EXT. के लेआउट में, मापित 243.86 स्के. मी. (291.66 स्के. वार्डस) अलवर में स्थित, राजस्थान -301001, निम्ननुंसार परिबद्ध है: पूर्व: युआईटी प्लॉटम पार्थिम: रोड 60'-0" चौड़ा उत्तर: प्लॉट नं1 दक्षिण: प्लॉट नं3	26.03.2021	रू.1,05,91,669.57 /- (रूपये एक करोड़ पाँच लाख इकानवे हजार छ सौ उनहत्तर और सत्तावन पैसे मात्र) 26.03.2021 के अनुसार
2	कर्ज खाता क्र. HLLAALW00369245 1.अलवर इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एन्ड टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड 2. सनराइज इंटीग्रेटेड एजुकेशनल ट्रस्ट 3. विष्णु कुमार अग्रवाल 4. मंजु अग्रवाल	जमीन/संपत्ति के सभी भाग और खंड के साथ संरंचनाएं, इमारत,फर्निचर, फिक्सचर, फिटींग्स, वहाँ पर है और/अथवा प्लान्ट और मशीनरी स्थापित/स्थापित करना है और/अथवा निर्मित/निर्माणाधिन और अलवर इंस्टिट्चूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एन्ड टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के सभी वर्तमान और भविष्य के अधिकार, टाइटल और इंट्रेस्ट प्लॉट नं. ई 677 और 678 मापित 8000 स्के.मी. एम. आई.ए. (नोर्थ एक्सटेंशन) में स्थित, अलवर में इंडस्ट्रियल एरिया, राजस्थान प्लॉट नं.क्रिय प्रिया, पीरबद्ध है: उत्तर में: रोड 24 मी. चौड़ा दक्षिण में: प्लॉट नं. 689 और 790 पूर्व में: मेन रोड 48 मी. चौड़ा पश्चिम में: प्लॉट नं. 679	26.03.2021	रू.8,07,16,072.23 /- (रूपये आठ करोड़ सात लाख सोलह हजार बहत्तर और तेईस पैसे मात्र) 26.03.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडे के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ा कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार ,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता '

में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंति हैं।

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियं

कृते इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड